



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 वैशाख 1937 (श0)
(सं0 पटना 577) पटना, सोमवार, 18 मई 2015

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय)

अधिसूचनाएं
14 मई 2015

सं० सा०प्र० 10/2015 बि०रा०आ०-68—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना के लिए स्वीकृत **अभिलेख निदेशक** के पद पर भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।- (1) यह नियमावली “बिहार राज्य अभिलेखागार अभिलेख निदेशक (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, २०१५” कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं । - इस नियमावली में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(i) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ii) “आयोग” से अभिप्रेत है बिहार लोकसेवा आयोग;

(iii) “विभाग” से अभिप्रेत है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग;

(iv) “नियुक्ति प्राधिकार” से अभिप्रेत है प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ।

3. संवर्ग का गठन । - इस संवर्ग में अभिलेख निदेशक (विभागाध्यक्ष का) के गैर संवर्गीय पद शामिल होंगे जिसका वेतनमान वहीं होगा जो राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

4. प्राधिकृत बल। - बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय के लिए यह एकल पद होगा।

5. भर्ती। - इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता-I. (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आधुनिक भारतीय इतिहास में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की डिग्री या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण। (ख) आधुनिक भारतीय

इतिहास से संबंधित किसी विषय पर पीएच.डी. की उपाधि (ग) अभिलेखीय विज्ञान का पर्याप्त ज्ञान एवं किसी अभिलेखीय कार्यालय/शोध संस्थान में शोध एवं प्रबंधकीय कार्य/किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में आधुनिक इतिहास के अध्यापन का कम से कम दस वर्षों का अनुभव (घ) शोध कार्य करने एवं शोधार्थियों का मार्गदर्शन करने का अनुभव। (ड.) पुराने अप्रकाशित अभिलेखों का अध्ययन एवं उनके प्रकाशन का अनुभव।

(2) चयन का आधार। - चयन का आधार शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार होगा। शैक्षणिक योग्यता के लिए 70 अंक, कार्यानुभव के लिए 20 अंक और साक्षात्कार के लिए 10 अंक के अधीन रहते हुए चयन बिहार लोकसेवा आयोग की अनुशंसा पर किया जायेगा।

6. **अर्हताएं।** - अभिलेख निदेशक के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए अर्हता नियम-5 के अनुसार होगी।

7. **आरक्षण।** - अभिलेख निदेशक के गैर संवर्गीय एकल पद पर नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित आरक्षण अधिनियम एवं आरक्षण रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

8. **अवशिष्ट मामले।** - जिन विषयों/बिंदुओं के लिए प्रावधान इस नियमावली में नहीं किये गये हैं, उनके संबंध में राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के प्रावधान लागू समझे जायेंगे।

9. **कठिनाइयों का निराकरण।** - इस नियमावली के प्रावधानों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई होती है तो इस नियमावली के प्रावधानों के अध्यक्षीन उसका निराकरण विधि विभाग के परामर्श से विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

10. **निर्वचन।** - इस नियमावली के किसी भी प्रावधान के निर्वचन के लिए विभाग विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् सक्षम होगा और इस संबंध में उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

11. **निरसन एवं व्यावृत्ति।** - (1) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व इस संवर्ग के संबंध में लागू सभी नियम, संकल्प, परिपत्र आदि एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, नियमावली, संकल्प या परिपत्र इत्यादि के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्ति थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
शिशिर सिन्हा,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 14th May 2015

No. Sa.Pra. 11/2015 B.S.A.-68—In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules for regulating the process of recruitment and conditions of service to the sanctioned post of **Director of Archives**, Bihar State Archives Directorate, Patna:-

1. *Short title, extent and commencement* - (1) These Rules may be called the "**Director of Bihar State Archives (Appointment and service conditions) Rules, 2015**"

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions.**- In these Rules, Unless otherwise requires in the context -

(i) "State Government" means the Government of Bihar ;

(ii) "Commission" means Bihar Public Service Commission;

(iii) "Department" means Cabinet Secretariat Department; and

(iv) "Appointing Authority" means Principal Secretary/Secretary, Cabinet Secretariat Department.

3. **Constitution of Cadre.** - The ex-cadre post of Director of Archives (Head of the Department) shall be included in this cadre of which pay scale will be the same as may be determined by the State Government (Finance Department), from time to time.

4. **Cadre Strength.**- This will be the single post for the Bihar State Archives Directorate.

5. **Recruitment.**- (1) Educational qualifications for the post - (a) Atleast post graduate degree in second class in Modern Indian History from a recognized University or passed in equivalent exam.

(b) Ph. D degree on a subject related to Modern Indian History;

(c) Sufficient knowledge of Archival Science and minimum ten years experience of Research and Management work in any Archival office/Research Institute or teaching experience of Modern Indian History in any recognized college;

(d) Experience of research work or of guiding research scholars;

(e) Experience of research and publication of old unpublished archival documents;

(2) Basis of Selection- Basis of selection shall be educational qualification, work experience and interview. Subject to the 70 marks for educational qualification, 20 marks for work experience and 10 marks for interview shall be awarded. The selection shall be made on the recommendation of Bihar Public Service Commission.

6. **Qualification.** - Qualifications for direct appointment to the post of Director of Archives shall be according to Rule 5.

7. **Reservation.**- The provisions of Reservation Act and Reservation roster prescribed by the State Government, from time to time will be applicable in the appointment to the ex-cadre single post of the Director of Archives.

8. **Residuary Matters.**- The matters for which provisions have not been made in these Rules, the provisions of relevant Rules of State Government will be deemed to be applicable.

9. **Removal of difficulties.**- If any difficulty arises in the implementation of the provisions of these Rules, the Department may remove such difficulties, in consultation with the Law Department, subject to the provisions of these Rules.

10. **Interpretations.**- The Department will be competent for interpretation of any provision of these Rules after in consultation with the Law Department, and its decision shall be final.

11. **Repeal & Saving.**- (1) All Rules, Resolutions and Circulars etc. issued earlier in respect of this cadre are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Rules, Resolutions and Circulars will be deemed to be done or taken under these Rule as if it were come into force on the day on which such thing was done or such action was taken.

By Order of the Governor of Bihar,

SHISHIR SINHA,

Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 577-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>